



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1—अगस्त 7, 2009 (श्रावण 10, 1931)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1—AUGUST 7, 2009 (SRAVANA 10, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110 101, दिनांक 7 जुलाई 2009

सं. जी.एफ. 627/पीएमए(स्था.)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत सुश्री संयुक्ता राय, उप सचिव को प्रधान मंत्री कार्यालय के सभी मामलों में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

2. इसे दिनांक 07.12.2009 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2009

सं. ए. 22017/1/2009/पीएमई--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय, आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव श्री डी. बालानुजन को दिनांक 27 जून, 2009 (पूर्वाह्न) से 7,600/- रुपये के ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-3 में प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री डी. बालानुजन की प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में नियुक्ति प्रधान मंत्री के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 22017/6/2004/पीएमई(स्था.)--श्री एम. के. नारायणन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपने पद से त्याग-पत्र दिए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के निजी स्टाफ में निजी सचिव श्री पी. के. एस. नायर ने दिनांक 22 मई, 2009 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 22017/2/2009/पीएमई(स्था.)--केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री के. एन. पुरुस्वानी को दिनांक 22 मई, 2009 (अपराह्न) से 8,700/- रुपये के ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-4 में श्री एम. के. नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के निजी स्टाफ में, निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री पुरुस्वानी की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के निजी स्टाफ में नियुक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 22017/6/2004/पीएमई(स्था.)--श्री एम. के. नारायणन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपने पद से त्याग-पत्र दिए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के निजी स्टाफ में निजी सचिव श्री के. एन. पुरुस्वानी ने दिनांक 22 मई, 2009 (अपराह) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2009

सं. ए. 22017/2/2009/पीएमई(स्था.)--केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री पी. के. एस. नायर को दिनांक 22 मई, 2009 (अपराह) से 4,800/- रुपए के ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-2 में श्री एम. के. नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के निजी स्टाफ में, निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री नायर की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के निजी स्टाफ में नियुक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2009

सं. आरएस/6/3/2009/38-कार्मिक--अधिसूचना सं. आरएस/6/3/2009/31-कार्मिक, दिनांक 24 जून, 2009 के अधिक्रमण में निम्नलिखित व्यक्ति राज्य सभा सचिवालय में राज्य सभा में विपक्ष के नेता के वैयक्तिक स्टाफ में 4 जून, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियुक्त किए गए हैं :--

- (i) श्री सुरेन्द्र दत्त रानाकोटी, वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में, 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 में + 6,600/- रुपए का ग्रेड वेतन; और
- (ii) सर्वश्री सुरेन्द्र प्रसाद देवरानी और पद्म सिंह, निजी सचिव के रूप में, 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 में 5,400/- रुपए का ग्रेड वेतन।

2. उपर्युक्त नियुक्तियां राज्य सभा में विपक्ष के वर्तमान नेता (श्री अरूण जेटली) के विवेकाधीन हैं और उनके कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएंगी।

सी. बी. राय, निदेशक

दिनांक 10 जुलाई 2009

सं. आरएस/6/3/2009/39-कार्मिक--केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में अपर आय-कर आयुक्त के पद से कार्यमुक्त होने पर श्री सीमांचल दास को 9 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से राज्य सभा सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 में + 8,000/- रुपए के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अनुसार ग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ राज्य सभा में विपक्ष के नेता के सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है।

2. श्री सीमांचल दास की नियुक्ति राज्य सभा में वर्तमान विपक्ष के नेता (श्री अरूण जेटली) के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएंगी।

सी. बी. राय, निदेशक

दिनांक 14 जुलाई 2009

सं. आरएस. 3/1/1/2009/40-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को 13 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 + 10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :--

- (i) श्री सुरेन्द्र कुमार वाट्स, निदेशक
- (ii) श्री एस. के. गांगुली, निदेशक

2. उपर्युक्त नियुक्तियां रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होंगी।

सी. बी. राय, निदेशक

सं. आरएस. 3/1/1/2009/41-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निदेशक (भाषान्तरण) श्री लक्ष्मण बाबूराव शिन्दे को 13 जून, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 + 10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर संयुक्त सचिव (भाषान्तरण) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, निदेशक

दिनांक 16 जुलाई 2009

सं. आरएस. 3/3/2009/42-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत संयुक्त निदेशक (वृत्तलेखन) श्री अजय घोष को 16 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक

इस सचिवालय में 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 + 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ निदेशक (वृत्तलेखन) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, निदेशक

सं. आरएस./3/6/1/2009/43-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत मुद्रण अधिकारी, श्री आर. के. त्रिखा को 16 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक (मुद्रण एवं प्रकाशन) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, निदेशक

सं. आरएस./3/5/2009/44-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत उप निदेशक (भाषान्तरण), श्री विनोद कुमार त्यागी को 16 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार पर 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 8,000/- रुपये के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक (भाषान्तरण) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री विनोद कुमार त्यागी द्वारा संयुक्त निदेशक (भाषान्तरण) के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवाओं की उस ग्रेड में वरीयता और अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।

सी. बी. राय, निदेशक

सं. आरएस./3/7/(1)/2009/45-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निम्नलिखित उप निदेशकों (संपादन और अनुवाद) को 16 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 8,000/- रुपये के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :-

1. श्रीमती सुलक्षणा शर्मा
2. श्री ओम प्रकाश

सी. बी. राय, निदेशक

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2009

सं. ए.37012/3/2008-वि.सा.प्र.(प्र.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन में संपादक

श्री अनूप कुमार वाष्ण्य को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में तारीख 1 जुलाई, 2009 (पूर्वाह्न) से 30 सितम्बर, 2009 तक, तीन मास की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, रुपए 37,400--67,000/- के वेतन बैंड + रुपए 8,700/- के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान संपादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री वाष्ण्य को प्रधान संपादक के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उस ग्रेड में ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जाएगा।

कुलदीप कुमार, उप सचिव

सं. ए.37012/3/2008-वि.सा.प्र.(प्र.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन में सहायक संपादक श्री जुगल किशोर को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में तारीख 1 जुलाई, 2009 (पूर्वाह्न) से 30 सितम्बर, 2009 तक, तीन मास की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + रुपए 7,600/- के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर संपादक के पद नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री जुगल किशोर को संपादक के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उस ग्रेड में ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जाएगा।

कुलदीप कुमार, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2009

सं. ए.32012/5/2008-प्रशा.वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री पी. आर. बनर्जी, अधीक्षक (विधि) (वर्तमान में तदर्थ आधार पर सहायक विधि सलाहकार के पद पर कार्यरत) को दिनांक 11 जून, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड में ग्रेड वेतन 6,600/- रु. सहित नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

सं. ए.32012/5/2008-प्रशा.वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री पी. एस. गुज्जर, अधीक्षक (विधि) को दिनांक 15 जून, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड में ग्रेड वेतन 6,600/- रु. सहित नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार

(भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

सं. ए.32012/5/2008-प्रशा.1(वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री बीर सिंह माझी, अधीक्षक (विधि) (वर्तमान में तदर्थ आधार पर सहायक विधि सलाहकार के पद पर कार्यरत) को दिनांक 22 जून, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड में ग्रेड वेतन 6,600/- रु. सहित नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 13 जुलाई 2009

सं. ई-16013/(1)/वी.पी./2009/कार्मिक-1/205--राष्ट्रपति, श्री विनयतोष मिश्र, भा.पु.से. (उड़ीसा : 1993) को दिनांक 22 जून, 2009 के (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ईकाई बी.एस.एल. बोकारो में उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रशान्त कुमार, उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2009

सं. ए-32016/01/2006-एस.एस.ओ.--गृह मंत्रालय में सचिव, एतद्द्वारा सचिवालय सुरक्षा संगठन में कार्यरत वरिष्ठ स्वागत अधिकारी सर्वश्री जी. के. पुरी, जी. के. शर्मा तथा एस. बी. साहा को उक्त संगठन में ही क्रमशः दिनांक 30.06.2009, 29.06.2009 तथा 29.06.2009 से संशोधित वेतनमान पी.बी.-2 रु. 9,300--34,800/- + रु. 4,200/- ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

हरचरण कौर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2009

सं. 14031/1/2007-यू.टी.एस.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग की 1972 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी, श्रीमती पी. एम. सिंह दिनांक 30 जून, 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2009

सं. आई-14011/27/2007-आईपीएस-1 (1)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 07.07.2009 को चयन समिति की दिनांक 24.12.2007 के

क्रम में दिनांक 22.05.2009 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2007 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के बिहार संवर्ग में वर्ष 2007 में सात मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु बिहार पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2007

क्रम अधिकारियों का नाम सं.	जन्म तिथि
(सर्वश्री/श्रीमती)	
1. सतीश कुमार (अनु. जा.)	01.03.1958
2. गोपाल प्रसाद	02.12.1958
3. विनोद कुमार चौधरी (अनु. जा.)	04.01.1959
4. मंजू झा	31.12.1957
5. शिवेश्वर प्रसाद शुक्ला	20.12.1955
6. इंद्रानंद मिश्रा	17.12.1956
7. चौरसिया चंद्रशेखर आजाद	14.01.1955

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/27/2007-आईपीएस-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2007

क्रम अधिकारियों का नाम सं.	जन्म तिथि
(सर्वश्री/श्रीमती)	
1. सतीश कुमार	01.03.1958
2. गोपाल प्रसाद	02.12.1958
3. विनोद कुमार चौधरी	04.01.1959
4. मंजू झा	31.12.1957
5. शिवेश्वर प्रसाद शुक्ला	20.12.1955
6. इंद्रानंद मिश्रा	17.12.1956
7. चौरसिया चंद्रशेखर आजाद	14.01.1955

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 जुलाई 2009

सं. I-18011/2/2009-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मधुर वर्मा, आई.पी.एस. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2005) को दिनांक 22.08.2007 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

राजेन्द्र कुमार

अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2009

सं. 23012/02/2009-अ.भा.से.-III--सिविल सेवा परीक्षा, 2007 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त श्री कुमार अमित, भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू.टी. : 2008) जो ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग के हैं, को अपना नाम "कुमार अमित" से बदल कर "अमित सतीजा" करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार, सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए उन्हें "श्री अमित सतीजा" के नाम से जाना जाएगा।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. 14012/24/2005-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	डॉ. एम. अरिज अहमद	1995	04.09.1997
2.	श्रीमती अर्चना वर्मा	1995	04.09.1997
3.	श्री प्रतीक हजेला	1995	04.09.1997
4.	श्री राजेश प्रसाद	1995	04.09.1997
5.	श्री बी. कल्याण चक्रवर्ती	1995	04.09.1997
6.	डॉ. जॉन बर्चमान्स एक्का	1995	04.09.1997

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2009

सं. 14012/22/2005-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम-मेघालय राज्य संवर्ग के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री कैलाश चंद सामरिया को दिनांक 06.09.1995 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2009

सं. 14012/01/2006-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	डॉ. (सुश्री) मंजुला एन.	2002	02.09.2004
2.	डॉ. शामला इकबाल	2002	05.09.2004
3.	सुश्री एम. इम्कॉगला जमीर	2002	02.09.2004

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. 14012/23/2005-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री संजय लोहिया	1994	04.09.1996
2.	श्री समीर कुमार सिन्हा	1994	04.09.1996
3.	श्री जोशी अविनाश पुरुषोत्तमदास	1994	04.09.1996
4.	श्री नीरज वर्मा	1994	04.09.1996
5.	सुश्री एल. एस. चंजसन	1994	04.09.1996

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2009

सं. 12/पी.ए.-II/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-I के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त करती हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	भा.वि.से. के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति की तिथि
	सर्वश्री	
1.	आर. रघुनाथ	1 मार्च 2009
2.	ओंकार सरूप	1 मार्च 2009
3.	सी. ओ. थॉमस	1 मार्च 2009

2. उपर्युक्त नियुक्तियां इन पदोन्नति पर प्रभाव डालने वाले न्यायालय के ऐसे किसी भी निर्णय के अध्वधीन होंगी।

आर. गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. एवं संवर्ग)

दिनांक 13 मई 2009

सं. क्यू./पी.ए.-1/25/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री सुखदेव राज गेवर, मंत्री, भारतीय दूतावास रबात से 30 अप्रैल 2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

दिनांक 17 जून 2009

सं. क्यू./पी.ए.-1/26/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री आर. के. झा, कौंसलर, भारतीय दूतावास काराकस से 31 मई 2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

दिनांक 29 जून 2009

सं. क्यू./पी.ए.-1/27/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-IV में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 30.04.2007 से सेवा में नोशनल रूप से ग्रेड-III में पदस्थापित तथा 26 मई 2009 के अपराह्न से कार्यात्मक रूप में नियुक्त करती हैं:--

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड
----------------	---------------	--------------------------

श्री एम. पी. गवई भा.वि.से. का ग्रेड-IV भा.वि.से. का ग्रेड-III

2. भा.वि.से. के ग्रेड-III में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. के ग्रेड-IV में 26.05.2009 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-III में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. क्यू./पी.ए.-1/28/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री विजय कुमार, कौंसलर, भारतीय दूतावास किनसासा से 30 जून

2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

दिनांक 2 जुलाई 2009

सं. क्यू./पी.ए.-1/29/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री जिले सिंह, राजदूत, भारतीय दूतावास प्योंगयांग से 30 जून 2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

सं. क्यू./पी.ए.-1/30/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्रीमती रीना पाण्डे, राजदूत, भारतीय दूतावास येरेवान से 30 जून 2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

सं. क्यू./पी.ए.-1/31/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री सी. एम. भन्डारी, राजदूत, भारतीय दूतावास वारसा से 30 जून 2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

सं. क्यू./पी.ए.-1/32/2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्रीमती लावण्या प्रसाद, उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायोग निकोसिया से 30 जून 2009 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

दिनांक 9 जुलाई 2009

सं. क्यू./पी.ए.-1/33/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा. वि.से.) के ग्रेड-III में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 01, जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं:--

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड
----------------	---------------	--------------------------

डॉ. वी. एस. शेपाद्री भा.वि.से. का ग्रेड-III भा.वि.से. का ग्रेड-II

2. भा.वि.से. के ग्रेड-II में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. के ग्रेड-III में 01.07.2009 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-II में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर. गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

दिनांक 13 जुलाई 2009

सं. क्यू./पी.ए.-1/34/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा. वि.से.) के ग्रेड-III में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 01 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं:--

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड
----------------	---------------	------------------------------

श्री आर. वी. वारजरी भा.वि.से. का ग्रेड-III भा.वि.से. का ग्रेड-II

2. भा.वि.से. के ग्रेड-II में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि.से. के ग्रेड-III में 01.07.2009 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-II में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आर. गौरव श्रेष्ठ
उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 2009

सं. 46 (फा. सं. ए-19014/03/2009-प्रशा.1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के नियमित सहायक श्री राजेश कुमार जो वर्तमान में इस विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं उन्हें संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 को उत्तीर्ण करने के आधार पर इस विभाग में दिनांक 16.06.2009 (अपराह्न) से 2005 की चयन सूची के लिए नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में उनकी नियुक्ति श्री कैलाश चंद्र एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर न्यायालय मामला सं. 13245-60/2005 जो उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित है तथा श्री सौराशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ ए सं. 1083/2008 एवं एम ए सं. 1171/2007, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लंबित, के परिणामों के अध्यधीन होगी। नियुक्ति के लिए अनुशासित सहायक की वरिष्ठता केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संघ बनाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक सीधी

भर्ती संघ के विषय में रिट याचिका (सी) सं. 4876/2007 के परिणामों के अध्यधीन होगी।

3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1964 के अनुसार श्री राजेश कुमार, अनुभाग अधिकारी की अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अनुमोदित नियमित सेवा 01.07.2005 से गिनी जाएगी।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 9 जुलाई 2009

सं. 47 (फा. सं. ए-19012/10/2009-प्रशा.1)--भारत के राष्ट्रपति, डॉ. एस. पी. शर्मा, भारतीय सांख्यिकी सेवा के दिनांक 06.07.2009 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक राजस्व विभाग में निदेशक (कर अनुसंधान एकक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2009

सं. 48 (फा. सं. ए-19011/7/2009-प्रशा.1)--भारत के राष्ट्रपति, सुश्री ऊषा गुप्ता, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 73024) को दिनांक 30.06.2009 (अपराह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी हो, 24,050-650-26,000/- रुपये के (पूर्व-संशोधित) वेतनमान में कानपुर में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 49 (फा. सं. ए-19011/8/2009-प्रशा.1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री एम. सी. कथेरिया, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 73050) को दिनांक 30.06.2009 (अपराह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी हो, 24,050-650-26,000/- रुपये के (पूर्व-संशोधित) वेतनमान में अहमदाबाद में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2009

सं. 8/2009-ई.एस.फा. सं. 5/32/2006-ई.एस.--भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर/सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के निम्नलिखित अधिकारियों को भारत वित्त आसूचना एकक, राजस्व विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-4 (37,400--67,000/- रुपये) में अपर निदेशक के रूप

में उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं. एवं पदनाम	तैनात के रूप में	प्रभाव से
1. श्री अमिताव, भारा.से. (आ.क.-90)	अपर निदेशक (भारत वित्त आसूचना एकक)	26.05.2009 (पूर्वाह्न)
2. श्री अनुज गोगिया भारा.से. (सी.शु. एवं के. उ.शु.-92)	अपर निदेशक (भारत वित्त आसूचना एकक)	18.06.2009 (पूर्वाह्न)

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2009

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) संस्थापनाएं

सं. 25/2009-(फा. सं. ए-38012/05/2009-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत श्री युधिष्ठिर अग्रवाल, सहायक आयुक्त, सतर्कता महानिदेशालय, नई दिल्ली के दिनांक 31.07.2009 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

एस. के. देव, अवर सचिव

सं. 26/2009 (फा. सं. ए-38012/07/2009-प्रशा. II)--भारत के राष्ट्रपति, सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत श्री आर. एलोसिअस सेलवारज, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद तिरुनिवेली का स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का नोटिस 01.08.2009 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं।

एस. के. देव, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2009

सं. ए-48011/11/2008-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा की कनिष्ठ समय वेतनमान स्तर की अधिकारी सुश्री स्वयंप्रवा पाणी को 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में 22 जून, 2009 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम बोहरा, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2009

सं. ए-19012/9/2006-डीआरटी--वैकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा

(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ऋण वसूली अधिकरण-II, मुम्बई में पीठासीन अधिकारी श्री के. जे. परतवार को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक, स्वयं के कार्यभार के अतिरिक्त ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर के पीठासीन अधिकारी के कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

ए. थॉमस, उप सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2009

सं. ए-12026/3/2009-प्रशा. I--राष्ट्रपति, संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा 2005 के परिणाम के आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सहायक श्री सुधांशु शेखर मिश्रा को 1 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक वेतन बैंड पी बी 3 (9,300--34,800/- रुपए + 4,800/- रुपए ग्रेड वेतन) में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी ग्रेड से श्री सुधांशु शेखर मिश्रा की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में लम्बित न्यायालय मामला डब्ल्यू पी (सी) संख्या 13245-60/2005 (श्री कैलाश चन्दर बनाम भारत सरकार) और माननीय कैंट (केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल) में लम्बित ओ ए संख्या 1083/2007 एवं एम.ए. संख्या 1171/2007 (श्री सारांशु सिन्हा बनाम भारत सरकार) के परिणाम पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में उनकी वरीयता रिट याचिका (सी) संख्या 4876/2007 केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सीधी भर्ती सहायक एसोसिएशन के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

मीताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2009

सं. 16/2009 (ए-19011/12/2009-स्था. I)--आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2009 के आदेश सं. 13016/4/2009-आईईएस के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा सुश्री भूमिका वर्मा (आईईएस : 07) को 22 जून, 2009 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में (15,600--39,000/- रु. + 5,400/- रु. ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

आर. के. मित्रा, निदेशक

नई दिल्ली, 7 जुलाई 2009

सं. ए-12022/6/05-स्था. II--अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (समूह ख-ग्रेड I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 के आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2009

के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 5/2/2009-सीएस II द्वारा वाणिज्य विभाग के संवर्ग में किए गए नामांकन के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" के आशुलिपिक श्री राजेन्द्रन ए. आर. (रैंक 43), को पीबी-2 (9,300--34,800/- रु.) के वेतनमान + 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में वाणिज्य विभाग में आशुलिपिक ग्रेड "क और ख" (आमेलित) के पद पर दिनांक 1 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

राम लखन, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2009

सं. ए-38011/1/2009-स्थापना-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने के फलस्वरूप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक (सीएसएस) श्री कुँआरा माझी, 30 जून, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2009

सं. ए-19011/7/2009-स्थापना-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 जुलाई, 2009 के आदेश संख्या 4/1/2009-सीएस. I (डी) द्वारा वर्ष 2007 चयन सूची के चयन ग्रेड (उप सचिव) में शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, ग्रेड I (अवर सचिव) के.स.से. अधिकारी को 15,600--39,100/ रुपये के पे बैंड-3 + 7,600/- रुपये के ग्रेड पे पर 8.7.2009 (पूर्वाह्न) से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 16 जुलाई 2009

सं. ए-12011/4/2009-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री रूपिन्दर सिंह, भा.प्र.से. (महा : 96) को 29.5.2009 से उनके पांच वर्ष की धारणावधि में से शेष अवधि के लिए, अर्थात् 9.10.2012 तक या मंत्री जी के निजी सचिव नहीं रहने या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले घटित हो, उप सचिव स्तर पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय

(औषध निर्माण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 जुलाई 2009

सं. ए-12011/3/2009-स्थापना--राष्ट्रपति ने श्री ओमप्रकाश, सीएसएस (77) को 18 मई, 2009 के अपराह्न से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का सदस्य सचिव नियुक्त किया है।

राम चन्द्र, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2009

सं. ए-12012/1/2009-स्थापना--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय में सहायक श्री अवधेश कुमार को 11.6.2008 के पूर्वाह्न से वेतन ढांचा पीबी-2, 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- (ग्रेड वेतन) में कोयला राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति मंत्री जी के कार्यकाल के को-टर्मिनस अथवा मंत्री जी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता रहने तक, इसमें से जो भी पहले हो, होगी।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2009

सं. 2 (10)/2009-स्थापना--सक्षम प्राधिकारी आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग के श्री पी. एस. रघुवंशी, उच्च श्रेणी लिपिक, को इस्पात मंत्रालय में माननीय इस्पात मंत्री के व्यक्तिगत स्टॉफ में स्थानापन्न आधार पर सहायक निजी सचिव के रूप में को-टर्मिनस आधार पर दिनांक 29.5.2009 (पूर्वाह्न) से और माननीय मंत्री को उनकी सेवाओं की आवश्यकता होने तक अथवा माननीय मंत्री द्वारा पद त्याग देने तक अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

दिनांक 3 जुलाई 2009

सं. 2 (9)/2009-स्थापना--राष्ट्रपति, डॉ. अर्जा श्रीकांत, आईआरटीएस (87) जो पूर्व में तत्कालीन माननीय कोयला राज्य मंत्री (संतोष बागरोदिया) के निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे को निदेशक स्तर पर माननीय इस्पात राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप) के निजी सचिव के रूप में दिनांक 3 जून, 2009 से 3.4.2012 अर्थात् केन्द्र में उनके कार्यकाल की शेष अवधि तक अथवा माननीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करने से हट जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2009

सं. ए-12011/5/2009-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री आर. एस. रावत को 23 मई, 2009 के पूर्वाह्न से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के कार्यकाल पर्यन्त को-टर्मिनस (प्रतिनियुक्ति) आधार पर उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक 30.09.2009 अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 9,300--20,200/- रुपये के

वेतन बैंड (पी बी-2) + 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) के प्रथम निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रभा भट्ट, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2009

सं. ए-32013/10/2008-रा.प्रो.शा.(स्था)--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में फ्लेक्सिबल कम्प्लेमेंटिंग स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित वैज्ञानिक एस.सी. को वैज्ञानिक एस.डी. के पद पर 15,600--39,100/- + 7,600/- रुपए के वेतनमान में स्वस्थाने आधार पर उनके सम्मुख दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री डी. के. दत्ता	5 जून, 2009 अपराह्न
2.	श्री सोमित्रा वासु	5 जून, 2009 अपराह्न
3.	श्री केदारनाथ मिश्रा	5 जून, 2009 अपराह्न
4.	श्रीमति एस. ए. कौशिल	5 जून, 2009 अपराह्न
5.	श्री सत्यप्रिया राय	15 जून, 2009 अपराह्न
6.	डॉ. पी. कानजीलाल	5 जून, 2009 अपराह्न
7.	श्री निर्मल चन्द्र दास	5 जून, 2009 अपराह्न
8.	श्री वाई धनंज	5 जून, 2009 अपराह्न
9.	श्री ए. के. एस. बनसोद	5 जून, 2009 अपराह्न
10.	डॉ. एस. के. कुलश्रेष्ठ	5 जून, 2009 अपराह्न
11.	श्री जी. एन. सुधाकर	5 जून, 2009 अपराह्न

केवल कृष्ण, अवर सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2009

सं. 6-1/2008-ई.ओ.पी.--राष्ट्रपति, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में निदेशक (तदर्थ) श्री एस. के. वाधवा को पे-बैंड (पी.बी.-3) 15,600--39,100/- + 7,600/- रुपए ग्रेड वेतन में 26.06.2009 से नियमित आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

बाबू राम, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2009

सं. ए-26019/4/2009-एस.ए.--शर्करा निदेशालय के तकनीकी सहायक के पद को 6,500--10,500/- रुपए के वेतनमान

(संशोधन-पूर्व) में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद के साथ विलय करने के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश (आयोग की रिपोर्ट के पैरा 7.12.13 में निहित) स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने सा.का.नि.62(अ) तारीख 29 अगस्त, 2008 के रूप में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित) वेतन नियमावली, 2008 द्वारा 01.01.2006 से 4,200/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-II में शर्करा निदेशालय के तकनीकी सहायकों का संशोधित वेतनमान अधिसूचित किया है।

अतः अब शर्करा निदेशालय के निम्नलिखित अधिकारियों को जो नियमित आधार पर 01 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार तकनीकी सहायक का पद धारण किए हुए हैं, को दिनांक 01.01.2006 से 4,200/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-II में समूह 'ख' राजपत्रित पद के रूप में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (श.त.) का पुनः पदनाम दिया जाता है :-

1. श्री एम. के. अग्रवाल
2. श्री एस. के. श्रीवास्तव
3. श्री डी. के. यादव
4. श्री एम. सी. कटियार

एस. के. कौंडन, उप सचिव

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जुलाई 2009

सं. ए-38015/1/2009-स्था.--वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय की सामान्य सेवाओं के ग्रुप "ए" अधिकारी श्री एस. के. वधवा, निदेशक, सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जुलाई, 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त माने जाएंगे।

वाई. सी. निज़ावन, मुख्य निदेशक
एवं खाद्य तेल आयुक्त

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जुलाई 2009

सं. ए-38015/2/2009--वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय की सामान्य सेवाओं के ग्रुप "ए" अधिकारी श्री एच. एन. भार्गव, सहायक निदेशक, सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जुलाई, 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त माने जाएंगे।

एस. के. वधवा, निदेशक (प्रशासन)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(जैव प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जून 2009

सं. ए-38011/03/2007-स्था.--जैव प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत श्री एस. एल. गोविंदवार, वैज्ञानिक "जी" 30 जून, 2009 के अपराह्न

के प्रभाव से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

दिनांक 7 जुलाई 2009

सं. ए-19011/09/2007-स्था.--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति हेतु वर्ष 2003 की चयन की सूची में उन्हें शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री नन्द किशोर को 1 जुलाई, 2003 से और अगले आदेशों तक उप सचिव (सीएसएस) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 नवम्बर 2008

सं. 22012/16/1996-भा.व.से.-II (पार्ट)--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उपविनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उड़ीसा राज्य वन सेवा के निम्नलिखित दो अधिकारियों को वर्ष 1995-96 की चयन सूची के आधार पर उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम 1966 के नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का उड़ीसा संवर्ग आबंटित करते हैं :-

क्र. अधिकारी सं. का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री		
1. लक्ष्मीकांत डैस	17.07.1953	14.01.1997
2. विश्व नारायण मोहन्ती	15.04.1951	12.03.1997

2. इसे माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कटक पीठ की ओ.ए.सं. 110/1996 में दिनांक 5 फरवरी, 2004 को पारित आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है और यह अंतर्वेशन के मामले में भारत सरकार के निर्णय और आगामी न्यायालय आदेशों, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होगा।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 26 फरवरी 2009

सं. 18012/05/2005-भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) विनियम 1968 के विनियम 3 (2) और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारतीय वन सेवा के तमिलनाडु

संवर्ग के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों की उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से पुष्टि करती है :-

क्र. अधिकारी सं. का नाम	भा.व.से. में नियुक्ति की तारीख	पुष्टि की तारीख
सर्वश्री		
1. वी. करुणाप्रिय	02.06.1997	02.06.2000
2. वी. नागानाथन	02.06.1997	02.06.2000
3. दिनकर कुमार	01.06.1996	01.06.1999
4. आशिष कुमार श्रीवास्तव	02.06.1997	02.06.2000
5. सम्पतलाल गुप्ता	02.06.1997	02.06.2000
6. वी. धिरुनावुकारासु	02.06.1997	02.06.2000
7. निहार रंजन	06.08.2001	06.08.2004

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 दिसम्बर 2008

सं. 17015/01/2007-भा.व.से.-II--केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार से परामर्श कर भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप नियम (1) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई तालीका के कॉलम 2 में दिए गए अधिकारियों के नाम के सामने कॉलम 3 में दिया गया संवर्ग आबंटित करती है।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के लिए, संवर्ग अधिकारी का आश्रय भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2007 के परिणामों के आधार पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अथवा जिन्हें सेवा में शामिल होने के लिए समय बढ़ाया गया है, के आधार पर सेवा में नियुक्त किए गए भारतीय वन सेवा के सदस्य से है:-

क्र. सं.	नाम	आबंटित किया जाने वाला संवर्ग
1	2	3
1.	सुश्री एम. सुबाश्री	तमिलनाडु
2.	सुश्री बासु कौशल	हिमाचल प्रदेश
3.	वी. रामप्रस्थ मनोहर	उत्तर प्रदेश
4.	अमित कुमार	बिहार
5.	राहुल जैन	एजीएमयूटी
6.	प्रशान्त धान्दा	असम-मेघालय
7.	बी. विवेकानन्द रेड्डी	छत्तीसगढ़
8.	सुश्री तृप्ती साह	पश्चिम बंगाल
9.	प्रबुद्ध एच. आर.	गुजरात

1	2	3
10.	मोहम्मद दीवान मैदीन	आन्ध्र प्रदेश
11.	सुश्री बी. निवेदिता	हरियाणा
12.	वसन्ता रेड्डी के. बी.	कर्नाटक
13.	श्री लक्ष्मी अन्नबाधुला	महाराष्ट्र
14.	पतरुनी राजेन्द्र नायडू	झारखण्ड
15.	साकेत बडोला	उत्तराखण्ड
16.	होन्नारेड्डी एन.	मणिपुर-त्रिपुरा
17.	प्रसन्ना कुमार बी. के.	नागालैण्ड
18.	संजीत कुमार	उड़ीसा
19.	अजीत कुलकर्णी	पंजाब
20.	अखिलेश कुमार कश्यप	उत्तर प्रदेश
21.	सैयद नदीम हुसैन	जम्मू एवं कश्मीर
22.	सुशील कुमार	मध्य प्रदेश
23.	भूपति आर.	राजस्थान
24.	एस. इलामुरुगन्तान	सिक्किम
25.	दिलराज प्रभाकर	छत्तीसगढ़
26.	वसन्त बी.	असम-मेघालय
27.	नेसामनी के.	बिहार
28.	मलाथी प्रियम	गुजरात
29.	किरण बाबू वसंत	हिमाचल प्रदेश
30.	एम. सुधागर	पंजाब
31.	कन्नन के.	उत्तराखण्ड
32.	संथोषा जी. आर.	पश्चिम बंगाल
33.	एम. मुधुकुमार	जम्मू एवं कश्मीर
34.	कार्तिकेयन के.	केरल
35.	नरवाने गजेन्द्र प्रकाश	महाराष्ट्र
36.	वैंगडप भूटिया	मणिपुर-त्रिपुरा
37.	सी. एच. पदमा	तमिल नाडु
38.	टी. अशोक कुमार	उड़ीसा
39.	रॉगसेनलेमला इमचेन	नागालैण्ड
40.	न्याली एट	एजीएमपट्टी

अजय कुमार लाल, निदेशक
(आई. एफ. एस.)

दिनांक 17 जुलाई 2009

सं. 17013/25/2008-भा.व.से.-2--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1966 के विनियम 9 के उपनियम (1) के

साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति गुजरात राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वर्ष 2007 की चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के गुजरात संवर्ग आबंटित करते हैं :--

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तारीख
श्री एन. डी. पटेल	10.07.1954	13.07.2008
ए. के. लाल, निदेशक		

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 जून 2009

सं. ए-11013/03/2009-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री जे. शरत चन्द्र, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निजी सहायक को दिनांक 02 जून, 2009 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री जे. शरत चन्द्र की नियुक्ति सहकालिक आधार पर अथवा मंत्री द्वारा उनकी सेवायें अपेक्षित होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2009

सं. ए-19013/03/2009-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री बी. पी. सिंह (आईसीओएस : 96) को दिनांक 22.06.2009 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, चार वर्षों की अवधि के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 08 जुलाई 2009

सं. 38017/1/2009-एम.-I--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री एम. जगन मोहन राव, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उपकार्यालय, विशाखापट्टनम दिनांक 30.06.2009 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राधेश्याम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2009

सं. 6-12/2008-आई.एन.एम.-I--राष्ट्रपति, डॉ. एम. के पालीवाल, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पे बैंड-2 (9,300--34,800/- रु.) +

ग्रेड पे 4,600/- रुपए समूह ख राजपत्रित को राष्ट्रीय जैव खेती केन्द्र (पुराना नाम राष्ट्रीय जैव-उर्वरक विकास केन्द्र) गाजियाबाद में 28.01.2009 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (पुराना नाम सहायक सूक्ष्म जीव विज्ञानी) पी.बी.-3 (15,600/-39,100/- रु.) ग्रेड पे 5,400/- रु. में समूह 'क' राजपत्रित-जीसीएस के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. सी. बेन, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2009

सं. 29/8/2001-पीपी-II (के-II)--राष्ट्रपति, डॉ. एस. के. खुराना, संयुक्त निदेशक (मैडिकल) पौध संरक्षण संगरोध औसंचयन निदेशालय को सचिव (केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति) के पद का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 17.6.2009 से अगले आदेशों तक सौंपते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 13 जुलाई 2009

सं. 3(11)/2009-कार्मिक. 1--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस विभाग के सहायक, श्री अनिल कुमार नैयर को दिनांक 09.07.2009 के पूर्वाह्न से 4800/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800/- रुपए के वेतन बैंड-2 के संशोधित वेतन ढाँचे में स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर इस विभाग में अनुभाग अधिकारी (एनएफएसजी) नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 14 जुलाई 2009

सं. 16(1)/2009-पीए(टीए)--राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस निदेशालय के निम्न वैज्ञानिक 'ई' जोकि पे बैंड-4 रु 37400-67000/-+ग्रेड पे 8700/- के वेतनमान में कार्यरत हैं उन्हें वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर पे बैंड पद-4 रु.37400-67000/- + ग्रेड पे 8900/- के वेतनमान में उनके नाम के आगे दर्शाई तारीख से नियुक्त किया है :-

1	2	3
1.	श्री औबुल रेड्डी	05.06.2009 (पूर्वाह्न)
2.	श्री जी. चिन्नाकेशावुल्लु	05.06.2009 (पूर्वाह्न)
3.	श्री रमेश चन्द्र ठाकुर	05.06.2009 (पूर्वाह्न)
4.	श्रीमती पी. के. पदमाकुमारीअम्मा	05.06.2009 (पूर्वाह्न)
5.	श्री आर राजेन्द्रण	05.06.2009 (पूर्वाह्न)
6.	श्री मुकुट बिहारी मित्तल	05.06.2009 (पूर्वाह्न)
7.	श्री विवेक कश्यम	05.06.2009 (पूर्वाह्न)

1	2	3
8.	श्री अपूर्वा कुमार धर	05.06.2009 (पूर्वाह्न)
9.	श्री आर. मुथुकुमार	15.06.2009 (पूर्वाह्न)

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

सं. 16(2)/2008-पीए(टीए)--वोल्यम-II--राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस निदेशालय के निम्न वैज्ञानिक 'एफ' जोकि पे बैंड-4 रु 37400-67000/- + ग्रेड पे 8900/- के वेतनमान में कार्यरत हैं उन्हें वैज्ञानिक 'जी' के पद पर पे बैंड पद-4 रु. 37400-67000/- + ग्रेड पे 10,000/- के वेतनमान में 09.07.2009(पूर्वाह्न) से नियुक्त किया है:-

1. श्री दीबाकर बासु
2. डाक्टर (श्रीमती) हेमामालिनी खुराना
3. श्री ईश्वर प्रसाद नरम शैटी
4. श्री सुप्रकाश मैती
5. श्री आर रविन्द्रण

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2009

सं. ए 12025/01/04-आर. एस. (पार्ट)--राष्ट्रपति, भारतीय रेलवे के वरिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी के अधिकारी श्री सुदर्शन नायक (आई.आर.एस.ईई.) को दिनांक 15 जून, 2009 (अपराह्न) से नागर विमानन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग में रेल संरक्षा आयुक्त, वेतनमान पे बैंड-4 में रु. 12,000/- ग्रेड पे के साथ (पूर्व संशोधित वेतनमान रु. 22,400-525-24,500/-), के पद पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त अधिकारी कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

ओमा नन्द, अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2009

सं.ईआरबी-1/2009/14/14--रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (आरबीएसएसएस) के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से तदर्थ आधार पर 9300-34800/- रुपए + ग्रेड पे 4800/- रुपए (संशोधित) के पे बैंड-2 में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (आरबीएसएसएस) के निजी सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया है:-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	श्री/श्रीमती/कुमार	
1.	वीना गोविल	01.07.2009 (पूर्वाह्न)
2.	शशि मिगलानी	01.07.2009 (पूर्वाह्न)
3.	मनीष मल्होत्रा	01.07.2009 (पूर्वाह्न)
4.	राकेश कुमार जैन	06.07.2009 (पूर्वाह्न)
5.	सीता गुप्ता	01.07.2009 (पूर्वाह्न)
6.	हरीश कुमार	01.07.2009 (पूर्वाह्न)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव,
रेलवे बोर्ड

सं.ईआरबी-1/2009/3/1--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (रे.बो.स.से.) के निम्नलिखित सहायकों को प्रत्येक के नाम सामने दर्शाई गई तारीख से तदर्थ आधार पर 9300-34800/- रुपए + ग्रेड पे 4800/- रुपए (संशोधित) के पै बैंड-2 में (आरबीएसएस) के अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया जाता है:--

क्र. सं. नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
श्री/श्रीमती/कुमार	
1. शकुंतला गुरदित्त	05.06.2009 (अपराह्न)
2. चन्दर गुलाटी	02.07.2009 (पूर्वाह्न)
3. निर्मला शहदादपुरी	02.07.2009 (पूर्वाह्न)
4. सुरिन्दर पाल कौर नंदा	09.06.2009 (पूर्वाह्न)
5. बलराज दुग्गल	02.07.2009 (पूर्वाह्न)
के. बी. एल. मित्तल, सचिव, रेलवे बोर्ड	

दिनांक 17 जुलाई 2009

सं. ई(जी.पी.)2005/1/55--राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रेलों के दूरसंचार विभाग के निम्नलिखित 130 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 29.05.2009 से भारतीय रेल सिग्नल एवं दूरसंचार सेवा (आई.आर.एस.एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं।

2005-06 के लिए पैनल

अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

मध्य रेलवे

1. एन. एस. पी. पटनायक
2. एस कन्नन
3. एस. जे. चौहान

पूर्व रेलवे

1. ए. के. चक्रवर्ती
2. एस. चट्टोपाध्याय

उत्तर मध्य रेलवे

मोहन लाल (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

पूर्वोत्तर रेलवे

एल. पी. तिवारी

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

1. एस. के. बनर्जी
2. एन. के. सरकार (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
3. टी. आर. राय प्रमाणिक (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

उत्तर रेलवे

1. एन. के. सिंघल
2. ए. के. सिन्हा
3. एस. के. अग्रवाल
4. एच. पी. अग्रवाल

उत्तर पश्चिम रेलवे

1. राजेश चन्द्र
 2. एम.के. सिन्हा
- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

आई. बी. मिश्रा

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. एस. के. साहा
2. पी. के. घोष
3. आर. डी. प्रसाद (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

दक्षिण पश्चिम रेलवे

ए. बाबू राव

2006-07 के लिए पैनल

मध्य रेलवे

1. पी. के. शेषा
2. सुखराम किरार
3. मधुरेन्द्र सहाय
4. ए. बी. डभाडे (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

पूर्व तटीय रेलवे

पी. एस. भट्टाचार्य

उत्तर मध्य रेलवे

एम. एन. सिंह

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

डी. घोष

उत्तर रेलवे

1. पी. के. श्रीवास्तव

2. यू. के. अस्थाना

उत्तर पश्चिम रेलवे

संजय अग्निहोत्री

दक्षिण मध्य रेलवे

1. पी. वेंकटेश्वर राव
2. ए. कमलाकर राव

अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

3. पी. योहान (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
4. बी. हनुमन्ता राव (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
5. पी. रमा कृष्णराव (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. एस. वी. राव.
2. अमित रॉय
3. वेनु हल्दर (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
4. एस. चट्टोपाध्याय

दक्षिण रेलवे

आर. तिरुमुरुगन

पश्चिम मध्य रेलवे

एस. एस. अबरार

पश्चिम रेलवे

1. आर. पी. श्रीवास्तव
2. एस गुरुमूर्ती
3. प्रवीण कुमार
4. ओम प्रकाश बजाज

2007-08 के लिए पैनल

मध्य रेलवे

1. एस. सी. ठाकरे
2. आर. सी. वर्मा
3. पी. के. पन्त (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
4. अविनाश संगोले (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
5. पी. ए. कदम (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

पूर्व तटीय रेलवे

जे. आचार्य

पूर्व मध्य रेलवे

एस. के. रॉय

पूर्व रेलवे

1. आर. एन. दत्ता
2. धनन्जय दास (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

उत्तर मध्य रेलवे

ए. एन. लाल

उत्तर पूर्व रेलवे

प्रेम चन्दर वर्मा

अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

1. बी. आर. पाठक
2. ए.के. विश्वास (जन्म तिथि : 08.08.1950)
3. ए. कुमार नारायण (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
4. पवन कुमार (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
5. मोहम्मद नूर इस्लाम

उत्तर रेलवे

1. ए. एल. शर्मा
2. अशोक कुमार गुप्ता
3. डी. एन. एस. यादव

उत्तर पश्चिम रेलवे

मंशीज मिश्रा

दक्षिण मध्य रेलवे

1. के. मथीवनन
2. सूर्यनारायण जी. एस.
3. बी. वी. पद्मावती
4. पी. जगन्नाथ राव (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
5. के. भाष्कर राव (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
6. बी श्रीराम नायक (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

1. बी. बी. दास
2. एस. आर. नन्दी

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. डी. मांझी
2. बी. गोस्वामी
3. जी. के. भद्र
4. एस. के. दास
5. ए. के. पाल
6. पी. के. नाग

दक्षिण रेलवे

1. एम. देवराजू
2. रामनाथन कास्था
3. वी. एस. वीरवागु
4. के. वेंकटरमनी

पश्चिम मध्य रेलवे

1. एस. के. सेनगुप्ता
2. के. के. श्रीवास्तव

अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

पश्चिम रेलवे

1. एस. जी. फडनोस
2. जोगिन्दर सिंह

2008-09 के लिए पैनल

मध्य रेलवे

1. बी. एम. सपकल
2. जी. एस. अहिरवार (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदेनति)

पूर्व तटीय रेलवे

पी. पाण्डा

पूर्व मध्य रेलवे

1. पी. रुखईयार
2. अन्जनी कुमार अम्बस्था

पूर्व रेलवे

1. सुब्रत कुमार दास
2. हेमन्त कुमार
3. शेषाधर बोल्या
4. अलोक कुमार गांगूली
5. सुबीर कुमार रुद्र

उत्तर मध्य रेलवे

एस.के. बुभौलिया

उत्तर पूर्व रेलवे

1. के. आर. पी. सिंह
2. बी. एस. श्रीवास्तव
3. मनोज राय
4. सुरेन्द्र कुमार खुराना

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

1. बी. राय
2. जी. आर. दास
3. ए. के. विश्वास (जन्म तिथि : 01.12.1955)

उत्तर रेलवे

1. एच. के. शर्मा
2. रजनीश झा
3. राज देव (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदेनति)

उत्तर पश्चिम रेलवे

1. जी. आर. हिण्डोनिया (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदेनति)

अधिकारियों का नाम

सर्वश्री

दक्षिण मध्य रेलवे

1. ए. सत्यनारायना
2. के. एल. जे. मोहन राव
3. बी. सूर्यनारायना
4. बी. सीतैय्या (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदेनति)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

1. सी. आर. दास
2. विनोद कुमार (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदेनति)

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. एस.एस. बरनवाल
2. ए. एस. बन्दोपाध्याय
3. एस. ओरैव (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदेनति)
4. डी. हेमब्रम (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदेनति)

दक्षिण रेलवे

1. के. शंकर नारायना
2. जी. राजशेखरन
3. आर. सेतुरमन
4. ए. एच. पचपुरे
5. सी. राजैयन
6. श्रीरामा कैटरामाख (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदेनति)

दक्षिण मध्य रेलवे

1. एम. पी. चतुर्वेदी
2. एम. डी. पथेरिया (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदेनति)

पश्चिम रेलवे

1. रमेन्द्र निगम
2. ओम रवि कटियार

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2009

सं. ए-12023/2/2009-ई-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.06.2009 के का. जा. सं. 1/5/2009-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार बर्नवाल, भा.प्र.से. (मध्य प्रदेश : 91) को 37,400/-67,000/- रुपए के पे बैंड-4 और 8,700/- रुपए के ग्रेड पे में निदेशक स्तर पर माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमलनाथ) के निजी सचिव के पद पर दिनांक 01.06.2009 (पूर्वाह्न) से 16.04.2013 तक अथवा जब तक वह माननीय मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहें तब तक, अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

बी. कृष्णास्वामी, अवर सचिव

सं. ए-12023/2/2009-ई-1--राष्ट्रपति, राज्य सभा सचिवालय में सुरक्षा सहायक ग्रेड-II श्री यादराम यादव को माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) के प्रथम निजी सहायक के पद पर दिनांक 10.06.2009 (पूर्वाह्न) से 9,300--34,800/- रुपए के पे बेंड-2 और 4,800/- रुपए के ग्रेड पे में सह-अवसानी/प्रतिनियुक्ति आधार पर अगले आदेशों तक अथवा जब तक मंत्री जी उनकी सेवा लेना चाहें तब तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

वी. कृष्णास्वामी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2009

सं. ए-38013/1/2009-ई-II (बी)--केन्द्रीय सचिवालय तकनीकी सेवा के अधिकारी और इस मंत्रालय में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत श्री एस. सी. कम्बोज दिनांक 30.06.2009 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

डी. आर. शर्मा, उप सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. 22/2009 फा. सं. 12/12/2008-प्रशासन-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्रीमती किरण बाला भसीन, अनुभाग अधिकारी विद्युत मंत्रालय 30 जून, 2009 को अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2009

सं. 24/2009 फा. सं. 1/5/2009-प्रशासन-II--राष्ट्रपति, श्री विजय कुमार, निजी सचिव, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय को दिनांक 03 जुलाई, 2009, अपराह्न से रु. 10,000--325-15,200/- (पूर्व-संशोधित) के वेतनमान में माननीय विद्युत राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) के निजी स्टाफ में अपर निजी सचिव नियुक्त करते हैं। श्री कुमार की यह नियुक्ति अस्थायी है तथा मंत्री जी की कार्यावधि तक या उनकी इच्छानुसार समय तक या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, होगी।

मधुकर सूद, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2009

सं. ए-32012/04/2008-आई.एस.एच. II--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से और अगले आदेशों तक खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में 14,300-400-18,300/- रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान में निदेशक खान सुरक्षा (खनन) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	निदेशक, खान सुरक्षा (खनन) के ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री विद्यापति	26.02.2009 (पूर्वाह्न)
2.	श्री ए. के. सुर	26.02.2009 (पूर्वाह्न)
3.	श्री डी. डी. साहा	17.06.2009 (पूर्वाह्न)
4.	श्री आर. सुब्रमणियन	06.03.2009 (पूर्वाह्न)

सुभाष चन्द, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 7th July 2009

No. G.F. 627-PMA(Estt.)—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Ms. Sanjukta Ray, Deputy Secretary is designated as Central Public Information Officer in respect of all matters pertaining to the Prime Minister's Office.

2. This issues in supersession of Notification of even number dated 7.12.2007.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

The 14th July 2009

No. A.22017/1/2009-PME—The President is pleased to appoint Shri D. Balanujan, Senior Principal Private Secretary of CSSS, as Officer on Special Duty on the personal staff of Prime Minister in the Pay Band-3 with Grade Pay of Rs. 7600/- with effect from the forenoon of 27th June, 2009.

2. The appointment of Shri Balanujan on the personal staff of Prime Minister is co-terminous with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

No. A.22017/6/2004-PMA(Estt.)—Consequent upon demission of the office by Shri M. K. Narayanan as National Security Adviser, Shri P. K. S. Nair, Private Secretary on personal staff of National Security Adviser has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 22nd May, 2009.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

No. A.22017/2/2009-PMA(Estt.)—The President is pleased to appoint Shri K. N. Puruswani, a re-employed pensioner, as Private Secretary to National Security Adviser in Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 8700/- with effect from the afternoon of 22nd May, 2009 until further orders.

2. The appointment of Shri Puruswani is co-terminous with the tenure of and at the discretion of National Security Adviser to Prime Minister.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

No. A.22017/6/2004-PMA(Estt.)—Consequent upon demission of the office by Shri M. K. Narayanan as National Security Adviser, Shri K. N. Puruswani, Private Secretary to National Security Adviser has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 22nd May, 2009.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

No. A.22017/2/2009-PMA(Estt.)—Shri P. K. S. Nair, a retired employee of Central Reserve Police Force is appointed as Private Secretary in Pay Band-2 with Grade Pay of Rs. 4800/- on the personal staff of Shri M. K. Narayanan, National Security Adviser with effect from the afternoon of 22nd May 2009.

2. The appointment of Shri Nair is on re-employment basis, co-terminous with the tenure of and at the discretion of the National Security Adviser.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 6th July 2009

No. RS/6/3/2009/38-Perl.—In supersession of Notification No. RS/6/3/2009/31-Perl., dated the 24th June, 2009, the following individuals have been appointed in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Leader of Opposition, Rajya Sabha with effect from the forenoon of 4th June, 2009, until further orders :—

- (i) Shri Surender Datt Ranakoti as Senior Private Secretary in PB-3 of Rs. 15600—39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/-; and
- (ii) S/Shri Surender Prasad Devrani and Padam Singh as Private Secretary in PB-3 of Rs. 15600—39100/- + Grade Pay of Rs. 5400/-.

2. The above appointments are at the discretion of the present Leader of Opposition, Rajya Sabha (Shri Arun Jaitley) and will be co-terminous with the term of his office.

C. B. RAI, Dir.

The 10th July 2009

No. RS/6/3/2009/39-Perl.—On being relieved from the post of Additional Commissioner of Income Tax in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, Shri Simanchala Dash has been appointed as Secretary to Leader of Opposition, Rajya Sabha in the Rajya Sabha Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100/- + Grade Pay of Rs. 8,000/- plus usual allowances admissible under the rules, on deputation basis w.e.f. the forenoon of 9th July, 2009.

2. The appointment of Shri Simanchala Dash is at the discretion of the present Leader of Opposition, Rajya Sabha (Shri Arun Jaitley) and co-terminous with the term of his office.

C. B. RAI, Dir.

The 14th July 2009

No. RS/3/1/2009/40-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following officers of the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Joint Secretary

in the Pay Band-4 of Rs. 37400—67000/- + Grade Pay of Rs. 10000/- on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 13th July, 2009, until further orders :—

- (i) Shri Surinder Kumar Watts, Director
- (ii) Shri S. K. Ganguli, Director

3. The above appointments would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

C. B. RAI, Dir.

No. RS/3/1/2009/41-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Laxman Baburao Shinde, Director (Interpretation) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Joint Secretary (Interpretation) in the Pay Band-4 of Rs. 37400—67000/- + Grade Pay of Rs. 10000/- on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 13th June, 2009, until further orders.

C. B. RAI, Dir.

The 16th July 2009

No. RS/3/3/2009/42-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Ajay Ghosh, Joint Director (Reporting) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Director (Reporting) in the Pay Band-4 of Rs. 37400—67000/- + Grade Pay of Rs. 8700/- plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 16th July, 2009, until further orders.

C. B. RAI, Dir.

No. RS/3/6/1/2009/43-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri R. K. Trikha, Printing Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director (P&P) in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/- plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 16th July, 2009, until further orders.

C. B. RAI, Dir.

No. RS/3/5/2009/44-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Vinod Kumar Tyagi, Deputy Director (Interpretation) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Joint Director (Interpretation) in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100/- + Grade Pay of Rs. 8,000/- plus usual allowances admissible under the rules, on ad-hoc basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 16th July 2009, until further orders.

2. The services rendered on ad-hoc basis by Shri Vinod Kumar Tyagi in the grade of Joint Director (Interpretation)

will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade.

C. B. RAI, Dir.

No. RS/3/7(1)/2009/45-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Deputy Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Joint Director (E&T) in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100/- + Grade Pay of Rs. 8,000/- plus usual allowances admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 16th July, 2009, until further orders :—

- (i) Smt. Sulakshana Sharma
- (ii) Shri Om Prakash

C. B. RAI, Dir.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 15th July 2009

No. A.37012/3/2008-VSP(A)—The President is pleased to appoint Shri A. K. Varshney, Editor in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Chief Editor in the Pay Band of Rs. 37400—67000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the said Prakashan of the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on ad-hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 1st July, 2009 to 30th September, 2009 or until further orders.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on Shri A. K. Varshney, any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Chief Editor nor the ad-hoc service rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

KULDEEP KUMAR, Dy. Secy.

No. A.37012/3/2008-VSP(A)—The President is pleased to appoint Shri Jugal Kishore, Assistant Editor in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Editor in the Pay Band of Rs. 15600—39100/- plus Grade Pay of Rs. 7600/- in the said Prakashan of the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on ad-hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 1st July, 2009 to 30th September, 2009 or until further orders.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on Shri Jugal Kishore any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Editor nor the ad-hoc service rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

KULDEEP KUMAR, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 9th July 2009

No. A-32012/5/2008-Admn.I(LA)—The President is pleased to appoint Shri P.R. Banerjee, Superintendent (Legal) (presently working as Assistant Legal Adviser on ad-hoc basis) to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of Legal Adviser Service cadre of ILS) on regular basis, in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- with grade pay of Rs. 6,600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 11th June, 2009 or until further orders.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

No. A-32012/5/2008-Admn.I(LA)—The President is pleased to appoint Shri P.S. Gujjar, Superintendent (Legal) to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of Legal Adviser Service cadre of ILS) on regular basis, in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- with grade pay of Rs. 6,600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 15th June, 2009 or until further orders.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

No. A-32012/5/2008-Admn.I(LA)—The President is pleased to appoint Shri Birsing Majhi, Superintendent (Legal) (presently working as Assistant Legal Adviser on ad-hoc basis) to officiate as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of Legal Adviser Service cadre of ILS) on regular basis, in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- with grade pay of Rs. 6,600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 22nd June, 2009 or until further orders.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 13th July 2009

No. E-16013(1)/VM/2009/Pers-I/205—On appointment as Deputy Inspector General in Central Industrial Security Force on deputation basis in the pay scale of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,900/- for a period of five years from the date of his taking over the charge of the post or until further orders whichever event takes place earlier, Shri Vinaytosh Mishra, IPS (OR: 1993) has assumed the charge of Deputy Inspector General, CISF Unit BSL Bokaro with effect from 22.06.2009 (FN).

PRASHANT KUMAR, Dy. Inspector Gen. (Pers.)

New Delhi, the 14th July 2009

No. A-32016/01/2006-SSO—Secretary in the Ministry of Home Affairs hereby appoints S/Shri V.K. Puri, V.K. Sharma and S.B. Saha, Senior Reception Officers in the Secretariat Organisation as Supervisor in the said Organisation, on a regular basis in the revised pay scale of PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,200/- with effect from 30.06.2009, 29.06.2009 and 29.06.2009 respectively.

HARCHARAN KAUR, Under Secy.

New Delhi, the 15th July 2009

No. 14031/1/2007-UTS—On attaining the age of superannuation, Smt. P.M. Singh, Indian Administrative Service Officer of 1972 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 30th June, 2009.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi, the 16th July 2009

No. I-14011/27/2007-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the Union Public Service Commission has on 07.07.2009, approved the Select List of 2007, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 22.05.2009 in continuation of the SCM held on 24.12.2007, containing the names of the following State Police Service Officers of Bihar, towards filling up seven substantive vacancies in the Bihar Cadre of IPS :—

Select List-2007

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
	Shri/Smt.	
1.	Satish Kumar (SC)	01.03.1958
2.	Gopal Prasad	02.12.1958
3.	Vinod Kumar Choudhary (SC)	04.01.1959
4.	Manju Jha	31.12.1957
5.	Shiveshwar Prasad Shukla	20.12.1955
6.	Indranand Mishra	17.12.1956
7.	Chaurasia Chandrasekhar Azad	14.01.1955

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/27/2007-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation 1955, the President is pleased to appoint the following members of Bihar Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Bihar under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954 :—

Select List-2007

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
	Shri/Smt.	
1.	Satish Kumar	01.03.1958
2.	Gopal Prasad	02.12.1958
3.	Vinod Kumar Choudhary	04.01.1959
4.	Manju Jha	31.12.1957
5.	Shiveshwar Prasad Shukla	20.12.1955
6.	Indranand Mishra	17.12.1956
7.	Chaurasia Chandrasekhar Azad	14.01.1955

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

New Delhi-110001, the 20th July 2009

No. I-18011/2/2009-IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Madhur Verma, IPS (AGMUT : 2005), in the Indian Police Service with effect from 22.08.2007.

RAJINDER KUMAR, Sec. Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 16th July 2009

No. 23012/02/2009-AIS-III—Shri Kumar Amit, IAS (UT : 2008), appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 2007 and borne on the cadre of AGMUT, has been permitted to change his name from "Kumar Amit" to "Amit Satija". He will accordingly be recognised as Shri Amit Satija for all official purposes.

G. C. PANDEY, Under Secy.

No. 14012/24/2005--AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Assam-Meghalaya, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Dr. M. Ariz Ahammed	1995	04.09.1997
2.	Smt. Archana Varma	1995	04.09.1997
3.	Shri Prateek Hajela	1995	04.09.1997
4.	Shri Rajesh Prasad	1995	04.09.1997
5.	Shri B. Kalyan Chakravarthy	1995	04.09.1997
6.	Dr. Jhon Berchmans Ekka	1995	04.09.1997

G. C. PANDEY, Under Secy.

The 17th July 2009

No. 14012/22/2005-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Kailash Chand Samaria, a member of the Indian Administrative Service, borne on the Assam-Meghalaya cadre of 1993 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 06.09.95

G. C. PANDEY, Under Secy.

The 20th July 2009

No. 14012/01/2006-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Karnataka, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Dr. (Ms.) Manjula N.	2002	02.09.2004
2.	Dr. Shamla Iqbal	2002	05.09.2004
3.	Ms. M. Imkongla Jamir	2002	02.09.2004

G. C. PANDEY, Under Secy.

No. 14012/23/2005-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Assam-Meghalaya, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Sanjay Lohia	1994	04.09.1996
2.	Shri Samir Kumar Sinha	1994	04.09.1996
3.	Shri Joshi Avinash Purushottamdas	1994	04.09.1996
4.	Shri Niraj Verma	1994	04.09.1996
5.	Ms. L.S. Changsan	1994	04.09.1996

G. C. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 24th April 2009

No. 12/PA-II/2009—The President is pleased to appoint the following officers of Grade-I of IFS(B) to the Senior Scale of Indian Foreign Service with effect from the date mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Promotion to Senior Scale of IFS
	S/Shri	
1.	R. Raghunathan	01.03.2009
2.	Onkar Sarup	01.03.2009
3.	C.O. Thomas	01.03.2009

2. The above appointments will be subject to any Court decision, which may have a bearing on these promotions.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 13th May 2009

No. Q/PA-I/25/2009—On attaining the age of superannuation, Shri S.R. Grover, Minister, Embassy of India, Rabat, retired from Grade-III of the Indian Foreign Service on the afternoon of 30.04.2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 17th June 2009

No. Q/PA-I/26/2009—On attaining the age of superannuation, Shri R.K. Jha, Counsellor, Embassy of India, Caracas, retired from Grade-IV of the Indian Foreign Service on the afternoon of May 31, 2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 29th June 2009

No. Q/PA-I/27/2009—The President is pleased to appoint the following officer of Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service notionally with effect from 30.04.2007 and functionally with effect from the forenoon of 26th May, 2009.

Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
Shri M.P. Gavai	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS

2. On promotion to Grade-III of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-IV of IFS in the forenoon of 26.05.2009 and assumed charge of the post in Grade-III of IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 1st July 2009

No. Q/PA-I/28/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Vijay Kumar, Counsellor, Embassy of India, Kinshasa, retired from Grade-IV of the Indian Foreign Service on the afternoon of June 30, 2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 2nd July 2009

No. Q/PA-I/29/2009—On attaining the age of superannuation, Shri Zile Singh, Ambassador, Embassy of India, Pyongyang, retired from Grade-III of the Indian Foreign Service on the afternoon of 30.06.2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-I/30/2009—On attaining the age of superannuation, Smt. Reena Pandey, Ambassador, Embassy of India, Yerevan, retired from Grade-III of the Indian Foreign Service on the afternoon of 30.06.2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-I/31/2009—On attaining the age of superannuation, Shri C. M. Bhandari, Ambassador, Embassy of India, Warsaw, retired from Grade-II of the Indian Foreign Service on the afternoon of 30.06.2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-I/32/2009—On attaining the age of superannuation, Smt. Lavanya Prasad, High Commissioner, High Commission of India, Nicosia, retired from Grade-I of the Indian Foreign Service on the afternoon of 30.06.2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 9th July 2009

No. Q/PA-I/33/2009—The President is pleased to appoint the following officer of Grade-III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of 1st July, 2009.

Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
Dr. V. S. Seshadri	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS

2. On promotion to Grade-II of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-III of IFS on the forenoon of 1st July, 2009 and assumed charge of the post in Grade-II of IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

The 13th July 2009

No. Q/PA-I/34/2009—The President is pleased to appoint the following officer of Grade-III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of 1st July, 2009.

Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
Shri R. V. Warjri	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS

2. On promotion to Grade-II of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-III of IFS on the forenoon of 1st July, 2009 and assumed charge of the post in Grade-II of IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 23rd June 2009

No. 46 (F. No. A.19014/03/2009-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, a regular Assistant of Finance Cadre of Central Secretariat Service

presently officiating as Section Officer in this Department as regular Section Officer for Select List of 2005 in this Department on the basis of qualifying the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005 w.e.f. 16.06.2009 (AN).

2. The appointment to the grade of Section Officer of Central Secretariat Service shall be subject to the outcome of the Writ Petition C No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs. Union of India & Ors. pending in the Hon'ble High Court, Delhi and OA No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in the Hon'ble CAT, Delhi. The seniority of the Assistants recommended for appointment shall be subject to the final outcome of the Writ Petition (C) No. 4876/2007 in the matter of the Central Secretariat Stenographers' Service Association Vs. the Central Secretariat Service Direct Recruit Assistants' Association.

3. As per the CSS Rules 1964, the approved regular service of Shri Rajesh Kumar in the Section Officer Grade will be counted from 1st July, 2005.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 9th July 2009

No. 47 (F. No. A-19012/10/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Dr. S.P. Sharma ISS, as Director (TRU) in the Department of Revenue with effect from 06.07.2009 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 10th July 2009

No. 48 (F. No. A-19011/7/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Usha Gupta, Indian Revenue Service (Income Tax: 73024), as Income Tax Ombudsman at Kanpur in the Pay Scale of Rs. 24,050-650-26,000/- (pre-revised) for a period of 2 years with effect from 30.06.2009 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 49 (F. No. A-19011/8/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri M.C. Katheriya, Indian Revenue Service (Income Tax: 73050), as Income Tax Ombudsman at Ahmedabad in the Pay Scale of Rs. 24,050-650-26,000/- (pre-revised) for a period of 2 years with effect from 30.06.2009 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 9th July 2009

No. 8/2009-ES (F. No. 5/32/2006-ES)—The President is pleased to appoint the following Indian Revenue Service (Income Tax/Customs & Central Excise) officers as Additional

Director in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) plus Grade Pay of Rs. 8,700/- on deputation basis in Financial Intelligence Unit-India, Department of Revenue, with effect from the dates shown against their names, for a period of three years or until further orders :—

Sl. No.	Name & Designation of the Officer	Posted as	w.e.f.
1.	Shri Amitav, IRS (IT-90)	Additional Director, (FIU-IND)	26.05.2009 (FN)
2.	Shri Anuj Gogia, IRS (C&CE-92)	Additional Director, (FIU-IND)	18.06.2009 (FN)

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

New Delhi, the 24th June 2009

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 25 of 2009 (F.No. A-38012/05/2009-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri Yudhishtir Agrawal, Assistant Commissioner, Directorate General of Vigilance, New Delhi with effect from 31.07.2009 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. DEB, Under Secy.

No. 26 of 2009 (F.No. A-38012/07/2009-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri R. Alocious Selvaraj, Assistant Commissioner of Central Excise, Tirunelveli with effect from 01.08.2009 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. DEB, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 6th July 2009

No. A-48011/11/2008-Admn. IA—The President is pleased to appoint Ms. Swayamprava Pani, a Junior Time Scale (JTS) Level officer of IES, as Assistant Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 22nd June, 2009 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 13th July 2009

No. A-19012/9/2006-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 of the Recovery

of Debts due to banks and Financial Institutions Act 1993, the Central Government hereby authorises Shri K. J. Paratwar, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Mumbai, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Nagpur, in addition to his own charge with immediate effect, until further orders.

A. THOMAS, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 10th July 2009

No. A-12026/3/2009-Admn.I—On the basis of result of the Combined Limited Departmental Examination, 2005 the President is pleased to appoint Shri Sudhanshu Sekhar Mishra, Assistant of the Department of Health & FW as Section Officer of the Central Secretariat Service in the Ministry of Finance, Department of Expenditure in the Pay Band PB-3 (Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay)) w.e.f. the forenoon of the 1st July, 2009 and until further orders.

2. The appointment of Shri Sudhanshu Sekhar Mishra to the Section Officers' Grade is subject to the outcome of the Court Case W.P.(C) No. 13245-60/2005 (Shri Kailash Chander Vs. UOI) pending in the Hon'ble High Court of Delhi and OA No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 (Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI) pending in the Hon'ble CAT, Delhi. Further, their seniority in the Section Officers' Grade shall be subject to the final outcome of the Writ Petition (C) No. 4876/2007 Central Secretariat Stenographers' Association Vs. The Central Secretariat Service Direct Recruit Assistants' Association.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 22nd June 2009

No. 16/2009(A-19011/12/2009-E.I)—In pursuance of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance Order No. 13016/4/2009-IES dated the 19th June, 2009, the President is pleased to appoint Ms. Bhumika Verma, (IES:07) as Assistant Director in the Pay Band of Rs. (15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/-) in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, with effect from the forenoon of 22nd June, 2009 until further orders.

Dr. R. K. MITRA, Dir.

New Delhi, the 7th July 2009

No. A-12022/6/05-E.II—Consequent upon his nomination to the cadre of the Department of Commerce by the Department of Personnel and Training vide their OM No.5/2/2009-CS.II dated 16th March, 2009 based on the Section Officer/Stenographers (Gr.B/Gr.I) Limited Departmental Competitive Examination, 2005, the President is pleased to

appoint Shri Rajendran A. R. (Rank No. 43), Steno. Grade 'C' of CSSS cadre of the Department of Commerce, as Steno Grade 'A&B' (merged) (PS) in the Department of Commerce in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of the 1st July, 2009.

RAM LAKHAN, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 6th July 2009

No. A-38011/1/2009-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri Kuanra Majhi, Director (CSS) in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, stands retired from Government service with effect from the afternoon of 30th June, 2009.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 10th July 2009

No. A-19011/7/2009-Estt.—Consequent on inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List Year 2007, vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/1/2009-CS.I(D) dated 6th July, 2009, the President is pleased to appoint Shri Anilkumar V. Patil, a Grade.I (Under Secretary) officer of CSS, as Deputy Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/-, w.e.f. 08.07.2009 (FN).

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 16th July 2009

No. A-12011/4/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rupinder Singh, IAS (MH:96) as Private Secretary to the Minister of State for Petroleum & Natural Gas (Shri Jitin Prasada) at the level of Deputy Secretary with effect from 29.05.2009 for the balance period of his tenure of five years as Private Secretary to the Minister i.e., upto 09.10.2012 or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS)

New Delhi-110001, the 14th July 2009

No. A-12011/3/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Om Prakash CSS (77) as Member Secretary, National Pharmaceuticals Pricing Authority with effect from the afternoon of 18th May 2009.

RAM CHANDER, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 14th July 2009

No. A-12012/1/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Awadhesh Kumar, Assistant, in the Ministry of Home Affairs as Assistant Private Secretary to the Minister of State for Coal (Shri Sriprakash Jaiswal) in the pay structure PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of 11th June, 2009. His appointment will be co-terminus with the tenure of the Minister or till the Minister requires his services, whichever is earlier.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi-110107, the 12th June 2009

No. 2(10)/2009-Estt.—The Competent Authority is pleased to appoint Shri P. S. Raghuvanshi, UDC in the CSCS cadre of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to officiate on a co-terminus basis as Assistant Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Minister of Steel in the Ministry of Steel w.e.f. the forenoon of 29.05.2009 and till his services are required by Hon'ble Minister or till Hon'ble Minister demits office or until further orders whichever is the earliest.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

The 3rd July 2009

No. 2(9)/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Arja Srikanth, IRTS (87), earlier working as Private Secretary to the Hon'ble MoS (Coal) (Shri Santosh Bagrodia), as Private Secretary to the Hon'ble Minister of State (Steel) (Shri A. Sai Prathap), Ministry of Steel at the level of Director w.e.f. 3rd June, 2009 (F.N.) for a period upto 03-04-2012 i.e. the balance period of his tenure at the center or till he ceases to function as Private Secretary to the Hon'ble Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 10th July 2009

No. A-12011/5/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri R. S. Rawat as First PA to Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Shri Sharad Pawar) in the Pay band of Rs. 9,300—20,200/- (PB-2) with a Grade Pay of Rs. 4,800/- (Group "B" Gazetted) with effect from the forenoon of 23rd May, 2009 on co-terminus (deputation) basis with the tenure of Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution upto his date of superannuation on 30.09.2009 or until further orders, whichever is earliest.

PREMA BHATT, Under Secy.

New Delhi, the 17th July 2009

No. A-32013/10/2008-NTH(Estt.)—The President is pleased to appoint the following Scientist SC to the post of Scientist SD in the National Test House on In-situ basis under Flexible Complementing Scheme in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/- with effect from date mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of taking over charge
1.	Shri D. K. Datta	5th June, 2009 (Afternoon)
2.	Shri Soumitra Basu	5th June, 2009 (Afternoon)
3.	Shri Kedar Nath Mishra	5th June, 2009 (Afternoon)
4.	Smt. S. A. Kaushil	5th June, 2009 (Afternoon)
5.	Shri Satya Priya Roy	15th June, 2009 (Forenoon)
6.	Dr. Prashanta Kanjilal	5th June, 2009 (Afternoon)
7.	Shri Nirmal C. Das	5th June, 2009 (Afternoon)
8.	Shri Yelogaleti Dhanajay	5th June, 2009 (Afternoon)
9.	Shri A. K. S. Bansod	5th June, 2009 (Afternoon)
10.	Dr. S. K. Kulshreshtha	5th June, 2009 (Afternoon)
11.	Shri G. N. Sudhakar	5th June, 2009 (Afternoon)

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 30th June 2009

No. 6-1/2008-EOP.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Wadhwa, Director (Ad-hoc) as Director on regular basis in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, Department of Food and Public Distribution w.e.f. 26.06.2009 in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/- Grade Pay.

BABOO RAM, Dy. Secy.

New Delhi, the 14th July 2009

No. A-26019/4/2009-S.A.—Consequent upon acceptance of the recommendation of 6th Central Pay Commission (contained in para 07.12.13 of its Report) to merge the post of Technical Assistant in the Directorate of Sugar with that of Junior Technical Officer in the scale of Rs. 6,500—10,500/- (Pre-revised), the Ministry of Finance, Department of Expenditure has notified the revised pay-structure of Technical Assistants in the Directorate of Sugar to Pay Band-II of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,200/- with effect from 01.01.2006 vide Central Civil Services (Revised) Pay Rules, 2008 as GSR-62 (E) dated 29th August, 2008.

2. Now, therefore, the following officers of Directorate of Sugar holding the post of Technical Assistant as on

1st January, 2006 on regular basis accordingly stand re-designated as Junior Technical Officers (Sugar Technical), a Group-B Gazetted post in Pay Band-II of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,200/- with effect from 01.01.2006 :—

- (i) Shri M. K. Aggarwal
- (ii) Shri S. K. Srivastava
- (iii) Shri D. K. Yadav
- (iv) Shri M. C. Katiyar

S. K. CONDON, Dy. Secy

DIRECTORATE OF VANASPATI, VEGETABLE OILS & FATS

New Delhi-110003, the 17th July 2009

No. A-38015/1/2009-Estt. On attaining the age of superannuation, Sh. S. K. Wadhwa, Director in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, a Group 'A' Officer of the General Central Services will stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2009.

Y. C. NIJHAWAN,
Chief Dir.-cum-Edible Oils Commissioner

New Delhi-110003, the 17th July 2009

No. A-38015/2/2009-Estt.—On attaining the age of superannuation, Sh. H. N. Bhargava, Assistant Director in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, a Group 'A' Officer of the General Central Services will stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2009.

S. K. WADHWA
Dir.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 30th June 2009

No. A-38011/01/2009-Estt.—Shri S. L. Govindwar, Scientist 'G' in the Department of Biotechnology retires from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2009 on superannuation.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

The 7th July 2009

No. A-19011/09/2007-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List for the year 2003 for appointment to CSS Selection Grade (Deputy Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS), the President is pleased to appoint Shri Nand Kishore, to the post of Deputy Secretary (CSS)

on regular basis with effect from 1st July, 2003 and until further orders.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 11th November 2008

No. 22012/16/1996-IFS.II(Part)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, the President is pleased to appoint the following two officers of the State Forest Service of Orissa to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the Year 1995-96 with effect from the dates mentioned against their names and allocate them to Orissa cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth	Date of Appointment
	S/Shri		
1.	Laxmikanta Dash	17.07.1953	14.01.1997
2.	Biswa Narayan Mohanty	15.04.1951	12.03.1997

2. This issues in pursuance of order dated 5th February, 2004 passed by the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Cuttack Bench in OA No. 110/1996 and is subject to the decision of Govt. of India and further court orders, if any, in the matter of interpolation.

C. M. SHARMA, Under Secy.

The 26th February 2009

No. 18012/05/2005-IFS-II—In exercise of the powers conferred by Rules 3(2) & 4 of the IFS (Probation) Rules, 1968, the Central Government hereby confirm the following IFS Officers borne on the Cadre of Tamil Nadu in the Indian Forest Service, with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Appointment to the IFS	Date of Confirmation
	S/Shri		
1.	V. Karunapriya	02.06.1997	02.06.2000
2.	V. Naganathan	02.06.1997	02.06.2000
3.	Dinkar Kumar	01.06.1996	01.06.1999
4.	Ashish Kumar Srivastava	02.06.1997	02.06.2000
5.	Sampatlal Gupta	02.06.1997	02.06.2000
6.	V. Thirunavukkarasu	02.06.1997	02.06.2000
7.	Nihar Ranjan	06.08.2001	06.08.2004

C. M. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 10th December 2008

No. 17015/01/2007-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the State Government concerned, hereby allocate the officers mentioned in column 2 of the table below to the cadres mentioned in the corresponding entry in column 3 thereof.

Explanation :—For the purpose of this notification, a cadre officer means a member of the Indian Forest Service appointed to the service on the basis of the results of the Indian Forest Service Examination, 2007, undergoing training at the Indra Gandhi National Forest Academy, Dehradun or who has been granted extension of time to join the Service :—

Sl. No.	Name	Cadre to which Allocated
1	2	3
	S/Shri/Smt.	
1.	Ms. M. Subashri	Tamil Nadu
2.	Ms. Basu Kaushal	Himachal Pradesh
3.	V. Ramprasath Manohar	Uttar Pradesh
4.	Amit Kumar	Bihar
5.	Rahul Jain	AGMUT
6.	Parshant Dhanda	Assam-Meghalaya
7.	B. Vivekananda Reddy	Chhattisgarh
8.	Ms. Tripti Sah	West Bengal
9.	Prabuddha H. R.	Gujarat
10.	Mohamed Diwan Mydeen	Andhra Pradesh
11.	Ms. B. Niveditha	Haryana
12.	Vasanth Reddy K. V.	Karnataka
13.	Sree Lakshmi Annabathula	Maharashtra
14.	Patruni Rajendra Naidu	Jharkhand
15.	Saket Badola	Uttarakhand
16.	Honnareddy N.	Manipur-Tripura
17.	Prasanna Kumar B. K.	Nagaland
18.	Sanjeet Kumar	Orissa
19.	Ajit Kulkarni	Punjab
20.	Akhilesh Kumar Kashyap	Uttar Pradesh
21.	Syed Nadeem Hussain	Jammu & Kashmir
22.	Sushil Kumar	Madhya Pradesh
23.	Bhoopathi R.	Rajasthan
24.	S. Elamurugannan	Sikkim
25.	Ditraj Prabhakar	Chhattisgarh

1	2	3
26.	Vasanthan B.	Assam-Meghalaya
27.	Nesamani K.	Bihar
28.	Malathi Priya M.	Gujarat
29.	Kiran Babu Vasanta	Himachal Pradesh
30.	M. Sudhagar	Punjab
31.	Kannan K.	Uttarakhand
32.	Santhosha G R.	West Bengal
33.	M. Muthukumar	Jammu & Kashmir
34.	Karthikeyan K.	Kerala
35.	Narwane Gajendra Prakash	Maharashtra
36.	Wangdup Bhutia	Manipur-Tripura
37.	Ch. Padma	Tamil Nadu
38.	T. Ashok Kumar	Orissa
39.	Rongsenlemla Imchen	Nagaland
40.	Nyaliete	AGMUT

AJAY KUMAR LAL, Dir. (IFS)

The 17th July 2009

No. 17013/25/2008-IFS.II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, the President is pleased to appoint the following officer of the State Forest Service of Gujarat to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2007 with immediate effect and allocate him to Gujarat cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Name of the Officer	Date of Birth	Date of Appointment
Shri N. D. Patel	10.07.1954	13.07.2008

AJAY KUMAR LAL, Dir. (IFS)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 30th June 2009

No. A-11013/3/2009-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri J. Sarat Chander, PA of the Department of Food & Public Distribution, as Assistant Private Secretary to the Minister of State for Health and Family Welfare (Shri S. Gandhiselvan) w.e.f. forenoon of 2nd June, 2009.

2. Appointment of Shri J. Sarat Chander will be on co-terminus basis or till the Minister requires his services or until further order, whichever is earlier.

ANIL UNIYAL, Under Secy.

The 15th July 2009

No. A-19013/03/2009-E.I.—The President is pleased to appoint Sh. V. P. Singh (ICoAS:96) as Deputy Secretary in the Department of Health & Family Welfare for the period of four years w.e.f. 22.06.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

ANIL UNIYAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPERATION)

New Delhi, the 8th July 2009

No. 38017/1/2009-M.I.—On attaining the age of superannuation Shri M. Jagan Mohan Rao, Senior Marketing Officer, Directorate of Marketing & Inspection, Sub-Office, Visakhapatnam retired from Government Service on 30.06.2009 (AN).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

New Delhi, the 17th July 2007

No. 6-12/2008-INM—The President is pleased to appoint Dr. M. K. Paliwal, Junior Scientific Officer in the PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + Grade Pay Rs. 4,600/- Group 'B' Gazetted to the post of Assistant Director (old name Assistant Microbiologist) in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 5,400/- Group 'A' Gazetted-GCS, under the National Centre of Organic Farming (old name National Bio-fertilizer Development Centre) Ghaziabad on ad-hoc basis for a period of one year w.e.f. 28-01-2009 (FN) or until further orders.

J. C. BAIN, Dy. Secy.

New Delhi, the 21st July 2009

No. 29/8/2001-PP.II(Vol.II)—The President is pleased to give additional charge of the post of Secretary (Central insecticides Board & Registration Committee) to Dr. S. K. Khurana, Joint Director (Medical) in the Directorate of Plant Protection Quarantine & Storage with effect from 17th June, 2009 until further orders.

K. SANJAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110 003, the 13th July 2009

No. 3(11)/2009-Pers.I—The Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint Shri Anil Kumar Nayyar, Assistant of this Department as Section Officer (NFSG) on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Pay Band-2 i.e. Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 09.07.2009.

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY
CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110 003, the 14th July 2009

No. 16(1)/2009-PA(TA)—The President is pleased to appoint the following Scientist 'E' in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- of this Directorate as Scientist 'F' in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/- with effect from the date mentioned against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Appointment
1.	Shri Obul Reddy	05.06.2009 (FN)
2.	Shri G. Chennakesavulu	05.06.2009 (FN)
3.	Shri Ramesh Chandra Thakur	05.06.2009 (FN)
4.	Smt. P. K. Padmakumari Amma	05.06.2009 (FN)
5.	Shri R. Rajendran	05.06.2009 (FN)
6.	Shri Mukut Bihari Mittal	05.06.2009 (FN)
7.	Shri Vivek Kashyap	05.06.2009 (FN)
8.	Shri Apurba Kumar Dhar	05.06.2009 (FN)
9.	Shri R. Muthukumar	15.06.2009 (FN)

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Dir.

No. 16(2)/2008-PA(TA) Vol.II—The President is pleased to appoint the following Scientist 'F' in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/- of this Directorate as Scientist 'G' in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 10,000/- with effect from 09.07.2009 (FN).

- (i) Shri Dibakar Basu
- (ii) Dr. (Smt.) Hemamalini Khurana
- (iii) Shri Eswara Prasad Naram Setty
- (iv) Shri Suprakas Maiti
- (v) Shri R. Ravindran

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Dir.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 16th July 2009

No. A-12025/01/04-RS (Pt.)—The President is pleased to appoint Shri Sudarson Nayak (IRSEE), Senior Administrative Grade Officer of the Indian Railways as Commissioner of Railway Safety in the pay in Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 12,000/- (pre-revised scale of pay Rs. 22,400-525-24,500/-) in the Commission of Railway Safety under the Ministry of Civil Aviation with effect from 15th June, 2009 (AN) until further orders.

2. The officer will be on probation for a period of one year from the date of assumption of charge.

OMANAND, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 15th July 2009

No. ERB-I/2009/14/14—The following Personal Assistants of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) have been promoted as Private Secretaries of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- (revised) on ad-hoc basis with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
	S/Shri/Ms.	
1.	Veena Govil	01.07.2009 (FN)
2.	Shashi Miglani	01.07.2009 (FN)
3.	Maneesh Malhotra	01.07.2009 (FN)
4.	Rakesh Kumar Jain	06.07.2009 (FN)
5.	Sita Gupta	01.07.2009 (FN)
6.	Harish Kumar	01.07.2009 (FN)

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2009/3/1—The following Assistants of Railway Board Secretariat Service (RBSS) have been promoted as Section Officers of Railway Board Secretariat Service (RBSS) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- (revised) on ad-hoc basis with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
	S/Shri/Ms.	
1.	Shakuntla Gurditta	05.06.2009 (AN)
2.	Chander Gulati	02.07.2009 (FN)
3.	Nirmala Shahdarpuri	02.07.2009 (FN)
4.	Surinder Pal Kaur Nanda	09.06.2009 (FN)
5.	Balraj Duggal	02.07.2009 (FN)

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

The 17th July 2009

No. E(GP)2005/1/55—The President is pleased to approve of the undermentioned 130 Group 'B' officers of Signal & Telecommunication Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE) with effect from 29.05.2009 on the Railways mentioned against each :—

PANEL FOR 2005-06

Name of the Officer

S/Shri

Central Railway

1. N. S. P. Patnaik
2. S. Kannan
3. S. J. Chauhan

Eastern Railway

1. A. K. Chakraborty
2. S. Chattopadhyay

North Central Railway

Mohan Lal (SC) Promoted against SC vacancy

North Eastern Railway

L. P. Tewari

Northeast Frontier Railway

1. S. K. Banerjee
2. N. K. Sarkar (SC) Promoted against SC vacancy
3. T. R. Roy Prmanaick (SC) Promoted against SC vacancy

Northern Railway

1. N. K. Singhal
2. A. K. Sinha
3. S. K. Agarwal
4. H. P. Agarwal

North Western Railway

1. Rajesh Chandra
2. M. K. Sinha

South East Central Railway

I. B. Mishra

Sourth Eastern Railway

1. S. K. Saha
2. P. K. Ghosh
3. R. D. Prasad (ST) Promoted against ST vacancy

South Western Railway

A. Babu Rao

PANEL FOR 2006-07

Central Railway

1. P. K. Shesha
2. Sukhram Kirar
3. Madhurendra Sahai
4. A. B. Dabhade (SC) Promoted against SC vacancy

Name of the Officer		Name of the Officer
S/Shri		S/Shri
East Coast Railway		East Coast Railway
P. S. Bhattacharya		J. Acharya
North Central Railway		East Central Railway
M. N. Singh		S. K. Roy
Northeast Frontier Railway		Eastern Railway
D. Ghosh		1. R. N. Dutta
Northern Railway		2. Dhananjay Das (SC) Promoted against SC vacancy
1. P. K. Srivastava		North Central Railway
2. U. K. Asthana		A. N. Lal
North Western Railway		North Eastern Railway
Sanjay Agnihotri		Prem Chander Verma
South Central Railway		Northeast Frontier Railway
1. P. Venkateswar Rao		1. B. R. Pathak
2. A. Kamalakara Rao		2. A. K. Biswas (DOB-08.08.1950)
3. P. Yohan (SC)	Promoted against SC vacancy	3. A. Kumar Narayan (SC) Promoted against SC vacancy
4. B. Hanumantha Rao (SC)	Promoted against SC vacancy	4. Pawan Kumar (SC) Promoted against SC vacancy
5. P. Rama Krishna Rao (ST)	Promoted against ST vacancy	5. Mohd. Noor Islam
South Eastern Railway		Northern Railway
1. S. V. Rao		1. A. L. Sharma
2. Amit Roy		2. Ashok Kumar Gupta
3. Benu Halder (SC)	Promoted against SC vacancy	3. D. N. S. Yadav
4. S. Chatopadhyay		North Western Railway
Southern Railway		Mansiz Mishra
R. Thirumurugan		South Central Railway
West Central Railway		1. K. Mathivanan
S. S. Abrar		2. Surya Narayana G. S.
Western Railway		3. B. V. Padamavathy
1. R. P. Srivastava		4. P. Jagannadha Rao (SC) Promoted against SC vacancy
2. S. Gurumoorthy		5. K. Bhaskara Rao (ST) Promoted against ST vacancy
3. Praveen Kumar		6. B. Sriram Naik (ST) Promoted against ST vacancy
4. Om Prakash Bajaj		South East Central Railway
	PANEL FOR 2007-08	1. B. B. Das
Central Railway		2. S. R. Nandi
1. S. C. Thakre		South Eastern Railway
2. R. C. Verma		1. D. Majee
3. P. K. Panth (SC)	Promoted against SC vacancy	2. B. Goswami
4. Avinash Sangole (SC)	Promoted against SC vacancy	3. G. K. Bhadra
5. P. A. Kadam (ST)	Promoted against ST vacancy	4. S. K. Das
		5. A. K. Pal
		6. P. K. Nag

Name of the Officer S/Shri	Name of the Officer S/Shri
Southern Railway	Northern Railway
1. M. Devraju	1. H. K. Sharma
2. Ramanathan Kartha	2. Rajneesh Jha
3. V. S. Veerabaghu	3. Raj Deo (SC) Promoted against SC vacancy
4. K. Venkata Ramani	North Western Railway
West Central Railway	G. R. Hindonia (SC) Promoted against SC vacancy
1. S. K. Sengupta	South Central Railway
2. K. K. Srivastava	1. A. Satyanarayana
Western Railway	2. K. L. J. Mohana Rao
1. S. G. Phadnis	3. V. Suryanarayana
2. Joginder Singh	4. V. Seethaiah (SC) Promoted against SC vacancy
PANEL FOR 2008-09	South East Central Railway
Central Railway	1. C. R. Das
1. V. M. Sapkal	2. Vinod Kumar (SC) Promoted against SC vacancy
2. G. S. Aharwar (SC) Promoted against SC vacancy	South Eastern Railway
East Coast Railway	1. S. S. Burnawal
P. Panda	2. A. S. Bandopadhyay
East Central Railway	3. S. Oraon (ST) Promoted against ST vacancy
1. P. Rukhaiyar	4. D. Hembrin (ST) Promoted against ST vacancy
2. Anjani Kumar Ambastha	Southern Railway
Eastern Railway	1. K. Sankara Narayanan
1. Subrata Kumar Das	2. G. Rajasekaran
2. Hemant Kumar	3. R. Sethuraman
3. Sesadhar Kollya	4. A. H. Pachapure
4. Alope Kr. Ganguly	5. C. Rajaian
5. Subir Kr. Rudra	6. Srirama Venkataramarao (SC) Promoted against SC vacancy
North Central Railway	West Central Railway
S. K. Budhaulia	1. M. P. Chaturvedi
North Eastern Railway	2. M. D. Patheria (SC) Promoted against SC vacancy
1. K. R. P. Singh	Western Railway
2. V. S. Srivastava	1. Ramendra Nigam
3. Manoj Rai	2. Om Ravi Katiyar
4. Surendra Kumar Khurana	
Northeast Frontier Railway	
1. B. Roy	
2. G. R. Das	
3. A. K. Biswas (DOB-01.12.1955)	

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 8th July 2009

No. A-12023/1/2009-E.I.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 1/5/2009-EO(MM-I) dated 26th June, 2009, the President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Barnwal IAS(MP:91) as Private Secretary to the Hon'ble Minister of Road Transport & Highways (Shri Kamal Nath) at the level of Director in the Pay

Band-4 Rs. 37,400/-67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- w.e.f. 01.06.2009 (FN) for a period upto 16-04-2013 or till he ceases to function as Private Secretary to the Hon'ble Minister or until further orders, whichever is earlier.

V. KRISHNASWAMY, Under Secy

The 17th July 2009

No. A-12023/2/2009-E-I—The President is pleased to appoint Shri Yadram Yadav, Security Assistant Grade-II, Rajya Sabha Secretariat as First Personal Assistant to the Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Shri Mahadeo Singh Khandela) in Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation/co-terminus basis w.e.f. 10.06.2009 (F.N.) till further orders or till the Minister Desires his services, whichever is earlier.

V. KRISHNASWAMY, Under Secy.

New Delhi, the 13th July 2009

No. A-38013/1/2009-E II(B)—Shri S. C. Kamboj, an officer of Central Secretariat Technical Service and working as Technical Assistant in the Ministry has retired on superannuation w.e.f. 30.06.2009 (AN).

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 1st July 2009

No. 22/2009, F.No. 12/12/2008-Adm.II—On attaining the age of superannuation, Smt. Kiran Bala Bhasin, Section Officer, Ministry of Power retired from Government Service in the afternoon of the 30th June, 2009.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

The 13th July 2009

No. 24/2009, F.No. 1/5/2009-Adm.II—The President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar, Private Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment as Additional Private Secretary in the personal staff of the Hon'ble Minister of State for power (Shri Bharatsinh Solanki) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- (pre-revised) with effect from the afternoon of the 3rd July, 2009. The appointment of Shri Kumar is temporary and co-terminus with the tenure of the Minister or so long as desired by him or until further orders, whichever is the earliest.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 7th July 2009

No. A-32012/04/2008-ISH.II—The President is pleased to appoint the following officers to the post of Director of Mines Safety (Mining) in the pre-revised pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the directorate General of Mines Safety, Dhanbad with effect from the date shown against their names and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment in the Grade of Director of Mines Safety (Mining)
1.	Shri Vidyapathi	26.02.2009 (FN)
2.	Shri A. K. Sur	26.02.2009 (FN)
3.	Shri D. D. Saha	17.06.2009 (FN)
4.	Shri R. Subramanian	06.03.2009 (FN)

SUBHASH CHAND, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009